20th August, 2022

ISIN: INE791A01024

То,	То,
The Manager (Listing)	The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra (East)	Dalal Street,
Mumbai- 400 051	Mumbai- 400 001
Symbol: BLBLIMITED	Scrip Code: 532290

Sub: Submission of Newspapers Advertisement

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published today i.e. 20th August, 2022 in "The Financial Express" (*English, all Editions*) and "Jansatta" (*Hindi, Local Edition*) newspapers.

This is for your kind information and records.

Yours Sincerely For BLB Limited

Nishant Garud

Company Secretary M. No.:- A 35026

Encl: As above



BLB Limited CIN : L67120DL1981PLC354823 Corporate Member : NSE

Registered Office : H.No. 4760-61/23, 3rd Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Tel : 011-49325600 Website : www.blblimited.com, Email : infoblb@blblimited.com

SATURDAY, AUGUST 20, 2022

FINANCIAL EXPRESS

Agent of Company at MAS Services Limited, T-34, 2^{ed} Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi, 110020, Email: info@masserv.com for any assistance. Members are required to quote their folio number in all correspondence with the Company/Registrar & Share Transfer Agent of the Company.

For Sterling Tools Limited

Date : 18th August, 2022 Place : Faridabad

(Vaishali Singh) Company Secretary

BLB LIMITED

CIN: L67120DL1981PLC354823) Regd. Office: H. No. 4760-61/23, 3ª Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002 Email: infoblb@blblimited.com; Website: www.blblimited.com; Tel: 011-49325800

INFORMATION REGARDING 41ST ANNUAL GENERAL MEETING OF BLB LIMITED

MEETING OF BLB LIMITED In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/ 2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/ 2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2020/79 dated May 12, 2020, No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of india ('SEBI Circulars'), the 41st Annual General Meeting ('AGM') of BLB Limited (the 'Company') will be held at 03.00 p.m. (IST) on Monday. (SEb) Circulars; the 41st Annual General Meeting (AGM) of BLB Limited (the 'Company') will be held at 03.00 p.m. (IST) on Monday, September 26, 2022 through Video Conference ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility provided by the National Securities Depositories Limited ('NSDL') to transact the businesses that will be set forth in the Notice of AGM ('Notice')

Members can attend and participate in the AGM <u>ONLY</u> through the VC/ OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the 41st AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 41st AGM of the Company in person. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

To the Companies Act, 2013. In accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice along with the Annual Report for the FY 2021-22 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agents ('Registrar')/ Depository Participants ('DPS'). As per the MCA Circulars and SEBI Circulars no physical/hard copies of the Notice of 41st AGM and Annual Report will be sent to any Member except to those shareholders who have reguested for the physical copy of the Annual Report 2021-22.

Members who have not yet registered their e-mail addresses can register the same as per following procedure:

- same as per rollowing procedure: Members holding shares in physical form may get their e-mail ids registered by submitting the duly filled and signed Form ISR 1 (available on the website of the Company under download section) for updating their KYC details along with necessary documents to our RTA- M/s Abhipra Capital Limited at Abhipra Complex, A-387, Diikhush Industrial Area, G T Karnal Road, Azadpur Delhi 110033, E-mail: rta@abhipra.com.
- Trantia road, veauptin bern 11005, c-mail raggionipta.com. Members holding shares in dematerialized form may also temporarily get their e-mail id registered by providing their Demat account details, Name, Client master copy, self-attested copy of PAN and Aadhar Card to the Company at csblb@blblimited.com or RTA at rta@abhipra.com. Please be informed that for permanent registration of e-mail adress, the members are requested to register the same with their respective Denository Participants. with their respective Depository Participants.

The login details for casting the votes through e-voting would be provided to the Members (holding shares in physical and dematerialized form) at their e-mail addresses registered for this purpose.

The Company shall also provide the facility of voting through remote e-voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM remote e-voting during the AGM will be provided in the Notice.

The e-copy of 41st Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 along with the Notice of the 41st AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.blblimited.com.

Additionally, the Notice of AGM will also be available and may be accessed from the relevant section of the website of Stock Exchanges on which securities of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

Place: New Delhi

Date: August 20, 2022

For BLB Limited Nishant Garud **Company Secretary**

-

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

conducting the remote e-voting and e-voting system during the AGM, in a fair and transparent manner. ers to If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cds/india.com or AGM contact at toll free no. 1800 22 55 33 to are All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be l be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25° Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to and helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33. tors ited For Milestone Global Limited Date: 20.08.2022 Place: Bangalore Anita Rawat tary Company Secretary

NOTICE

v Referred as Dividend) under Various Schemes of Axis Mutual Fund und ("the Fund") has approved the declaration of Distribution (of if ye Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) option(s) of

Holu —	antum of IDCW (₹ per unit)*	Record Date*	Face Value (₹ per Unit)	NAV as on August 18, 2022 (₹ per unit
Der	0.15	August 25, 2022*	10	19.2814
Hold	0.15			
	0.05			23.6780
Shri	0.05			10.6356
aira	0.10			11.4250
The -				13.34
pefo Repo	0.09		Bild Survey and and	11.78
(www. and	0.09			12.99

If you usiness Day.

you www.above stated IDCW options of the scheme(s)/plan(s) call to vy, if any. ...

holders whose names appear in the statement of beneficial owners (s) at the close of business hours on the record date and to the unit Date the Register of unit holders maintained with Registrar and Transfer Plac he close of the business hours on the record date.

"IMPORTA bject to availability of distributable surplus on the record date/ exe quantum of Distribution on the record date/ex-distribution date,

Whilst care is taken⁵ will be declared as Distribution. acceptance of ad copy, it is not possible its contents. The Express (P) Limited ca held responsible for contents, nor for any damage incurred as a transactions with con

For Axis Asset Management Company Limited (CIN - U65991MH2009PLC189558) (Investment Manager to Axis Mutual Fund) Sd/-

Chandresh Kumar Nigam Managing Director & Chief Executive Officer

associations or ind the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted ager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC) Risk Factors: advertising in its new from the operation of the schemes. Mutual Fund investments are subject to

recommend . that make necessary in before sending any mo entering into any agre with advertisers or other acting on an advertiser

AXIS MUTUAL FUND

any manner whatsoevlandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India. stomerservice@axismf.com, WEBSITE : www.axismf.com, NUMBER: 8108622211

स्थानः नई दिल्ली

जनसता 20 अगस्त, 2022

Place · New Delhi

Dated : 19.08.2022

By order of the Board For Seasons Textiles Limited Sd/-

स्थान :

दिनांक

C

वेबसा

एतद्वार

सितम्बर

स्टेशन

31 HIT

जाने व

निदेशक

नगती प

SAURABH ARORA Company Secretary and Compliance Officer

नीलामी सूचना

माननीय श्री हरीश कुमार, एडीजे-02/उत्तर/रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली की कोर्ट द्वारा पारित आदेश तिथि 2.7.2022 के अनुसार आवेदक कम्पनी अर्थात मै. टोयटा फाइनांसियल सविंसेस इंडिया लि. वाहन मैक ईनोवा यूरा IV/ कार, पंजीकरण सं. DL1ZZ2633, इंजिन नं. 2KDU650801 एवं चेसिस नं. MBJ11V4007493846 की बिक्री करने के लिये अधिकृत है कि, उक्त वाहन वर्तमान में नीचे वर्णित पते पर पार्क की गई है उसके लिये शर्मा यार्ड कार्यालय : डब्ल्यूजेड-20, ग्राम पोसंगीपुर, नई दिल्ली-110058 में 22.8.2022 को 11 बजे पूर्वा. में सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। इच्छुक क्रेता 22.8.2022 को 11 बजे पूर्वा से 2 बजे अप. तक उक्त स्थान पर वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं।

4

4.

मै. टोयटा फाइनांसियल सर्विसेस इंडिया लि. 1ला तल, सेन्ट्रोपोलिस नं. 21, लैंगफोर्ड रोड, रिचमांड टाउन, बैंग्लोर-560025

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified to the general public by this public notice that our client Shabbir Mohammad S/o Sh. Deen Mohammad Rva House No.C-117, Chungi No. 2, Lai Kuan, M.B. Read, New Delhi -1100/4 who was the parthrer in Mis Bharat Alum Industries, Village Dadi Kaniya, Tehseel Nalagarh, District Solen, Himachal Pradesh, hes retired from the partnership vide refirement cum partnership Deed dated 18.5.2022 and as per the said refirement deed, the existing partnership have taken over the past, present and future liability of the partnership firm and I have nothing to do with the business, assets and

liabilities of the said firm.

RAMA SHANKER ADVOCATE X-32/A, CIVIL WING, LAWYERS CHAMBERS, TIS HAZARI COURT DELHI -110054



CPJ College of Higher Studies & School of Law (Recognized by Govto II NCT on Delhi, Approved by Bar Council of India & Affiliated to GGSIP University, Delhi) Pitot No. OCF, Sector - AB, Narela, Delhi–110040 Ph: 011-27284333(34, Mah: Ba02001362 Emailtani, defamentil com

Email.cpj chs@gmail.com Applications from the Candidates are invited for admission against Management Quota Seats in different courses, detailed hereunder, for the Academic Session 2022-23.

a) CLAT PG-2022 Qualified & GGSIPU Registered Candidates for LLM b) CLAT UG-2022 Qualified & GGSIPU Pagistared Candidates for

Registered Candidates for BALLB/BBALLB c) CET-2022 Qualified Candidates for DBA/CAN/BCA & B.Com (H)

BBA/BBA(CAM)/BCA & B.Com (H) Application Forms are available from the College Office, Last date of Submission is 05.09.2022. The Counseling will be held on 08.09.2022 (11 a.m. onwards) in the College. Reservation of Seats as per GGSIP University/GNCT Delhi Rules. Director लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड सीआईएन : L65910DL1983PLC016712 पंजीकृत कार्यालय : 611, छंगे मंगिल, प्रगति टॉवर, 28 राजेन्द्र लेस, सामने मेट्रो स्टेशन, दिल्ली–110008 बूर्गाष : 011–66332288 ई–मेल: leadingleashing@gmail.com, वेबसाइट: www.lifiltd.in

अरविंद सिंह

प्रतंश चिटेशत

डीआईएनः 0272093

38वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों और कीर्पोरेट मामले मंत्रालय (एनसीए) हारा.द्वारा जांचे परिषत्र त. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, स. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सं 20/2020 दिनांक 7 मई, 2020 तथा सं 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 एवं अन्य प्रयोज्य परिषत्रों के साथ पठित सेथी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेकाएँ) विनियम, 2015 और सेथी (सामूकि कप से प्रासंग्रिक परिषत्र कहा जागेगा) के अनुयालन में ई–एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यत्सायों के तेन–देने के लिए कम्पनी की 38वीं वार्षिक आन बैठक (एजीएम) वीडियो कांग्रेस (वीसी)/अन्य अंडियो विजुञत साचनां (ओरवीएम) सुविधा के माध्यम से गुक्रवार, 09 सितम्बर, 2022 को 11.00 वर्ज पूर्वा, आयोजित को जायेगी। सदस्य वीसीओरादेषेप्प के माध्यम से ई–एजीएम मे शामिल डो सकेंगे। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में प्रावधानित किये जायेंगी। वीसीओ/प्रीएम के माध्यम से साम तेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की खाग 103 के तहत कोरम पूरा करने के उदेश्य से की जारेगी।

2 प्रासगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021-22 के स्टेष्डरलोन वित्तीय परिणामों के विवरण के साथ बोर्ध की रिपोर्ट लंखापरिक्त की रिपोर्ट एवं उससे संलग्भ अन्य दस्तावेज कम्पनी के उन सदस्यों के पास मेजे जायेंगे जिनके ई-सेल परेक प्रमानी/के रपिलट्रार एवं शेयर अन्तरण एउंट पूर्वा शेयरजिल्ट्री (इंडिया) प्राति. (इसके परचात 'बारटीए' सन्दर्भित) के साथ पंजीकृत है। वर्षपुर्लंक दरसावेज कम्पनी की विवरण के प्रारा अन्यरार एवं रपूर्वा शेयर अन्तरण एउंट पूर्वा शेयरजिल्ट्री (इंडिया) प्राति. (इसके परचात 'बारटीए' सन्दर्भित) के साथ पंजीकृत है। वर्षपुर्लंक दरसावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.bscindia.com तथा व मेट्रोपोतिटन स्टॉक एक्सघेज और इण्डिया दिनमटेड की देवसाइट https://www.bscindia.com तथा व मेट्रोपोतिटन स्टॉक एक्सघेज और इण्डिया हिमिटेड की देवसाइट https://www.bscindia.com तथा प्र नी वरलाइट क्रिकटा हा कि देव साइट

ई—मेल पते पंजीकृत/अपडेट कराने की रीति :

(क) नौतिक प्रास्त्रम में शैयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई—मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृताअपहेट नहीं कराये हैं वे कृपया http://purvashare.com/email and-phone-updation पर क्लिक करके या कम्पनी के पास फोलियो नन्दर का विदरण देते हुए पैन कार्ज की स्वप्रमाणित प्रति संतन्न करके leadingleashing@gmail.com पर अध्या पूर्वा श्रेयपठिष्ट्री (इविपा) प्राति के पास support@gmuvashare.com पर लिखकर अपने ई—मेल पते पंजीकृत/अपने इन्तेल पदे अपने दियोजिटरी नागीदारों के साथ पंजीकृत/अपनेट नहीं कराये हैं वे कृपया अपने उन सम्बाधित डियॉजिटरी नागीदारों जिनके पास उनके डीनेट खाते अनुराहील हैं संस्थार्थ करके अया है—मेल पता, मोबाइल तम्बर, पैन की स्वप्रमाणित प्रति तथा बलाइंट मास्टर कीपी उपलब्ध.कराते हुए प्रथम श्रेयरघारक हारा विधिवत छत्ताहरित अपने निदेवर की स्वेज्ज प्रति के साथ support@gurvashare.com पर ई—मेल करके अया ई—मेल, पता, पंजीकृत/अपने हारा विधिवत छत्ताहरित अपने निदेवर को स्वेज्ज प्रति के साथ support@gurvashare.com

ई-्वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की शैति : सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक योटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की यूपना में नियोरित व्यवसाय पर अपना मतदान करने को जीति एजीएम की सूचना में प्राचानित ई जिसे चेयराराकों के पास मेल कर दिया जायेगा। ये विवरण कम्पनी की बेबसाइट www.llfild.in पर थी जपतबा होगा। इसके आतिरिक कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपतबा करा रही है।

जिन सदस्यों ने अपने इं-मेल पते कम्पनीधडियोंजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग हेतु लोगिन विवरण और विसरत निर्देश सहित एजीएम में शामिल होने का विवरण प्राप्त करने हेतु अपने इं-मेल पते उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन करके पंजीकृत करा ते। बबस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट और विशेष रूप से एजीएम में

सदस्य एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी नोट और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की रीति का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

किसी पूछनाछ के लिए सबस्य कम्पनी से 011 -23532627/ ई-मेल आईडी : leadingeleshing@gmail.com असवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एव अन्तरण एजंट नैससे पूर्वा नेयरजीवर्ष्टी (डीवेश) प्रतित. से उनके कर्षातंतम २. शिव शकि इवेसिट्रात एस्टेट, जेआर. बीरिचा मार्ग, लोअर परेल (पूरी) मुम्बई, महाराषट्र 400011 से सम्पूर्व कर सकते हैं। सम्पर्क विवरण : दूरमाथ : 23018261 / 23012518 अध्या ई-मेल आईडी support@purvashare.com पर सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 18.08.2022

1.1

अमी जिनेन शाह पूर्ण कालिक निवेशक बीआईएन : 06732048 पता : गिरिशज, दूसरी मंजिस्, कोटामीवाड़ी वी.पी. रोड गिरगॉव, नुम्बई–400004

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 20 अगस्त, 2022

बीएलबी लिमिटेड (CIN: L67120DL1981PLC354823)

पंजी, कार्यालयः एच.ने. 4760-61/ 23, 3रा तल, अंसापी गेड, दरियानंच, नई दिल्ली-110002 वेबसाइंट: www.blblimited.com, इं-नेल: infoblb@blblimited.com फोन: 011-49325600

बीएलबी लिमिटेड की 41वीं वार्षिक आम सभा के विषय में सूचना

एतदृद्वारा युचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों और कॉर्थोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा 02/2022 तिथि 5 मई, 2022 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी (सुन्चीयन दाक्षिल एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के अनुपालन में बोएलबी तिमिटेड (कप्पनी) के सदरयों को 1वीं वार्थिक साधारण सभा (''एजीएम')' सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. (भा.मा.स.) में केवल विडियो कान्फ्रेंस (''चीसी'')/अन्य आदियो विजुआत माथ्रमों (''ओएदीएम')' के हारा आमंत्रित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना ('''सुचना') में निर्द्रिष्ट प्रवस्तारों की निष्पादित किया जावेगा।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा ही एजीएम में आपिल हो सकते हैं जिसका विवरण 41 वी एजीएम की सुचना में कम्पनी द्वारा उपलब्ध करावा जायेगा। तदनुसार, कृपवा ध्यान रहे कि व्यक्तिगत रूप से कम्पनी की 41वीं आम सभा में शामिल होने का कोई प्रावधान नंही किया गया है। वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

एमसीए सर्ब्युलर्स तथा सेवी सर्क्युलर्स के अनुसार एफवाई 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना इलेस्ट्रॉनिक रूप से उन्हीं सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्प्नो/रविसट्टार एवं अंतरण एजेन्द्रस (''रजिस्ट्रार'')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्रस (डीपी ज) के पास पंजीकृत हैं। एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेवी सर्क्युलर्स के अनुसार 41 वीं एज़ीएम की सूचना की डार्ड कॉपी/भौतिक प्रति तथा वार्षिक रिपोर्ट केवल ऐसे शेयर धारकों जिन्होंने वार्रिक रिपोर्ट 2021-22 की भौतिक प्रति के लिये अनुरोध किये हो, को ओड़कर किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी।

जिन सदरयों ने अपने इंमेल पुते पंजीकृत नहीं कराथे हैं, वे निम्न प्रक्रिया के अनुसार उसे पंजीकृत करा लें:

 भौतिक पद्धति में शेषर' धारित करेंने वाले सदस्य विधिवत भरी गई तथा हरताक्षरित फार्म-आईएसआर 1 (डाठनलोड खंड के अंतर्गत कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध) के साथ आवश्य दस्तावेचों सहित अपने केवाईसी के अपड़ैटिंग के लिये उसे हमारे आरटीए मै. अभिग्रा कैपिटल लिमिटेड के पास अभिग्रा कॉम्लैक्स, ए-387, दिलखुश इंडस्ट्रियल एरिख, जी.टी. करनाल रोड, आजादपुर, दिल्ली-110033, ईमेल: rna@abhipra.com पर जमा कर अपना इंमेल आईडी पंजीकृत कय सकते हैं।

2. डिमेंटीयलाइज्ड पद्धति में शेषर धारित करने वाले सदस्य esblb@blblimited.com भी पर कम्मनी के पास अथवा rta@abhipra.com पर आरटीए के पास अपन्ने हिमेटे खाता के विषरणी, नाम, बलाइन्ट मास्टर कॉपी, पैन तथा आधार कार्ड की स्वतः स्त्यार्पित प्रति उपलब्ध करा कर अस्थाई रूप से अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं। कृपया जान लें कि इंमेल पते के स्वाई पंजीकरण के तिये सदस्यों से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिनॉजिटरी पार्टिसेपैन्ट्स के पास उसे पंजीकरण के तिये सदस्यों से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिनॉजिटरी पार्टिसेपैन्ट्स के पास उसे पंजीकरण करा लें।

ई-वोटिंग हारा मतदान करने के लिये लॉगिन विवरण सदस्यों (भौतिक तथा डिमैंटेरियलाइज्ड पद्धति में श्रेवर धारित करने वाले) को इस उद्देश्य से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर उपलब्ध कराई जाएगी। कम्पनी सभा के दौरान रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली हारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया सूचना में-उपलब्ध कराई जाएगी।

41वें एजीएम की सूचना के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिये कम्पनी के 41वें वार्षिक रिपोर्ट की ई-कॉपी, वित्तीय विवरण तथा अन्य सांविधिक रिपोर्ट्स कम्पनी को वैबसाइंट www.blblimited.com पर उपलबध होगी।

अलग से, एजीएम की सूचना जिस पर कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीयदा हैं, उस स्टॉक एक्सचैज अर्थात-नेत्रनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाईट क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com के संबंधित खंड में भी उपलब्ध होगी तथा देखी जा सकेगी।

यह विज्ञापन एमसीए सब्युंलर्स तथा सेबी सब्युंलर्स के अनुपालन में कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी तथा लाभ के लिये जारी की जा रही है।

बीएलबी	लिमिटेड के लिये
1	हस्ता/-
1.1	निशांत गरुड़
1 4 A	कम्पनी सचिव

की सूच रजिस्ट्रा तथा जि दी गई एतदद्वारा की वेबर की प्रति तक व्या बैतक में सकता पॉक्सी अधिकतः सदस्यों नियम, 2 तथा भा 2015 के के-37/ए Gool-रिमोट ई होने वाल मतदान नेशनल 言」 रिमोट ई प्रति, उप जैसा भी सचना व वेबसाईट रिमोट ई 11 सितम मतदान एक बार जिस व्यां के रजिस सुविधा प्र यदि कोई तिथि अध भेजकर की, विस्तू एनएसडी जिन सद हो सकते कोई सव नहीं किर

मतदान

जाएंगे।

तिथि: 19